



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 614]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 23 सितम्बर 2019 — आश्विन 1, शक 1941

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 20 सितम्बर 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-7/2004/12. — खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्र. 67 सन् 1957) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में :-

- नियम 2 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (ग) में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
“(ग) “अधिमानी बोलीदार” से अभिप्रेत है नियम 6 के उप-नियम (4) के खण्ड (तीन) में विनिर्दिष्ट बोलीदार”
- नियम 3 में, उप-नियम (5) में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
“(5) अनुसूचित क्षेत्रों में, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (क्र. 40 सन् 1996) का पालन किया जायेगा।”
- नियम 5 में, उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
“(3) अधिमानी बोलीदार घोषित किये जाने के पश्चात्, अधिमानी बोलीदार को छोड़कर, अन्य समस्त बोलीदारों की बोली प्रतिभूति वापस किया जायेगा। अधिमानी बोलीदार द्वारा जमा बोली प्रतिभूति, कार्यपालन प्रतिभूति जमा किये जाने पर वापस किया जायेगा।”
- नियम 6 में उप-नियम (1) में, खण्ड (क) में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
“(क) बोलीकर्ता ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो या कंपनी/फर्म/सोसायटी/सहकारी सोसायटी होने पर, संबंधित अधिनियमों/नियमों के अधीन पंजीकृत हो, और अन्यथा इन नियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करते हों।

परन्तु यदि बोलीदार एक कंपनी/फर्म/सोसायटी/सहकारी सोसायटी हो तो कम से कम तीन चौथाई अंशधारिता, ऐसी कंपनी/फर्म/सोसायटी/सहकारी सोसायटी के धारक के पास होनी चाहिये, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो।”

5. नियम 9 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (ज) में, शब्द "अर्हित व्यक्ति" के स्थान पर, शब्द "मान्य योग्य व्यक्ति" प्रतिस्थापित किया जाये।
6. नियम 9 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (ध) में, शब्द "पन्द्रहवें दिवस को" के स्थान पर, शब्द "दसवें दिन" प्रतिस्थापित किया जाये।
7. नियम 9 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (र) में, शब्द "आदेशों" के पश्चात्, शब्द "नियमों एवं निर्देशों" अंतःस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 20 सितम्बर 2019

शुद्धि-पत्र

क्रमांक एफ 7-7/2004/12. —छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 16 अगस्त, 2019 में यथा प्रकाशित छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 में संशोधन संबंधी अधिसूचना क्रमांक एफ 7-7/2004/12, के हिन्दी पाठ में :-

पृष्ठ क्र. 1016 (4) में, नियम 9 के शीर्षक "गौण खनिज साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय हेतु सामान्य निबंधन एवं शर्तें.-" के पश्चात् तथा शब्द "प्रत्येक उत्खनन पट्टा" के पूर्व, कोष्टक एवं अंक "(1)" पढ़ा जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 20th September 2019

NOTIFICATION

No. F 7-7/2004/12. — In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand (Quarrying and Trade) Rules, 2019, namely :-

AMENDMENT

In the said Rules-

1. In rule 2, in sub-rule (1), in clause (c), the following shall be substituted, namely:-
 "(c) "Preferred Bidder" "means the bidder specified in clause (iii) of sub-rule (4) of rule 6."
2. In rule 3, in sub-rule (5), the following shall be substituted, namely :-
 "(5) In scheduled area's, the provision of the Panchayats (extension of the scheduled areas) Act, 1996 (No. 40 of 1996) shall be followed."
3. In rule 5, after sub-rule (2), the following shall be inserted, namely :-
 "(3) After the declaration of Preferred Bidder, Bid securities of all other bidders except the preferred bidder, shall be returned. The bid security deposited by the preferred bidder shall be returned on submission of the performance security."
4. In rule 6, in sub-rule (1), in clause (a), the following shall be substituted, namely :-
 "(a) the bidder shall be a person who is domicile of Chhattisgarh, or a company/firm/society/ cooperative society duly registered under the relevant act/rules and otherwise satisfy all the conditions specified in these rules.
 provided that, if the bidder is a company/firm/society/cooperative society, minimum three-fourth of the shareholding of such company/firm/ society/cooperative society, shall be possessed by the holder, who are domicile of Chhattisgarh".
5. In rule 9, in sub-rule (1), in clause (h), for the words "Qualified Person", the words "Recognized Qualified Person" shall be substituted.
6. In rule 9, in sub-rule (1), in clause (s), for the words "fifth day", the words "tenth day" shall be substituted.
7. In rule 9, in sub-rule (1), in clause (v), after the words "orders", the words "rules and instruction" shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
 ANBALAGAN P., Special Secretary.